

Model Question Paper 10+2 Accountancy Session-2025-26 MM=60

आदर्श प्रश्न-पत्र 10+2 लेखांकन सत्र-2025-26

1. Model question paper is divided into four parts, ie Part-A, Part-B, Part-C, Part-D

आदर्श प्रश्न-पत्र को चार भागों में बांटा गया है, अर्थात् भाग-ए, भाग-बी, भाग-सी तथा भाग-डी

2. Part-A will be 12 marks of MCQ, Part-B of 20 marks, Part-C of 12 Marks and Part-D of 16 Marks.

भाग-ए 12 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भाग-बी 20 अंकों का, भाग-सी 12 अंकों का तथा भाग-डी 16 अंकों का होगा।

3. Candidates are required to give answers in their own words as far as possible. For 2 marks question 40-50 words, for 3 marks question 80-120 words and for 4 marks question 150-200 words.

परीक्षार्थी जहाँ तक सम्भव हो सके अपने ही शब्दों में उत्तर दें, दो अंक के प्रश्न के लिए 40-50 शब्द, 3 अंक के लिए 80-120 शब्द, 4 अंक के प्रश्न के लिए 150-200 शब्द निर्धारित किये गए हैं।

Part-A [Multiple Choice Questions (MCQ = 12X1=12)] MM=12

Choose the correct alternative from the following four alternatives :

(निम्नलिखित चार विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें) :

प्रश्न 1 दावा/कथन: यदि किसी सांझेदारी फर्म को हानि होती है तो उस हानि को पूरा करने के लिए सांझेदारों की निजी सम्पत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है।

कारण: भारतीय सांझेदारी अधिनियम-1932 के अनुसार सांझेदारों का दायित्व असीमित होता है।

(अ) कथन तथा कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(ब) कथन तथा कारण दोनों सही हैं, परन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(स) कथन गलत है परन्तु कारण सही है।

(द) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।

Assertion/Statement : If there is loss in the partnership firm, then the personal property will be used to recover the loss of partnership firm.

Reason : According to partnership act-1932, the liabilities of partners are unlimited.

(a) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(b) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

(c) Assertion/Statement (A) is incorrect, but Reason (R) is correct.

(d) (A) is correct but (R) not correct.

(प्रश्न 2) सांझेदारी के पुनर्गठन का अर्थ है : The meaning of reconstitution of the firm is :

(अ) सांझेदारी फर्म का समापन (Dissolution of partnership firm)

(ब) सांझेदारी का समापन (Dissolution of partnership)

(स) सांझेदारों का त्याग अनुपात (Sacrificing ratio of partners)

(द) सांझेदारों का लाभ-प्राप्ति अनुपात (Gaining ratio of partners)

(Q.3) X & Y are two partners sharing profit or losses in the ratio of 3:2. They admitted Z as new partner for 1/4th share of profit. The new ratio of X, Y & Z, if Z takes equal share of his profit from X & Y. एकस और बाई एक फर्म में सांझेदार हैं, उनका लाभ-विभाजन अनुपात 3:2 है। वे जेड को फर्म में 1/4 भाग के लिए सांझेदार बनाते हैं। फर्म का नया लाभ-विभाजन अनुपात क्या होगा, यदि जेड अपने लाभ का हिस्सा एकस तथा बाई से बराबर रूप में प्राप्त करता है तो फर्म का नया लाभ-विभाजन अनुपात होगा :

(a) 19:11 : 10

(b) 21:19 : 10

(c) 3:2 : 4

(d) 21:11 : 10

(Q. 4) If the goodwill is already exist in the partnership firm, then it will be written off :

यदि सांझेदारी फर्म में ख्याति पहले से ही विद्यमान होती है तो इसे अपलिखित किया जाता है :

(a) In New Ratio (नये अनुपात में)

(b) In Gaining Ratio (लाभ-प्राप्ति अनुपात में)

(c) In Sacrificing Ratio (त्याग अनुपात में)

(d) In Old Ratio (पुराना अनुपात में)

(Q. 5) At the time of dissolution of partnership firm, the profit or loss of the realization A/c is transferred to :

सांझेदारी फर्म के समापन के समय वसूली खाते के लाभ या हानि को हस्तांतरित किया जाता है :

(a) In the Profit -Loss A/c (अ) (लाभ-हानि खाते में) (b) Profit-Loss Appropriation A/c (ब) (लाभ-हानि समायोजन खाते में)

(c) Partner's Capital A/cs (स) (सांझेदारों के पूंजी खातों में) (d) Cash/Bank A/c (द) (रोकड़/बैंक खाते में)

(Q. 6) Match the following items : निम्नलिखित का मिलान करें :

- | | |
|--|--|
| (a) Authorized Capital of a company
कम्पनी की अधिकृत पूंजी | = (1) Reserve capital
आरक्षित पूंजी |
| (b) Capital issued to the public
पूंजी जो जनता को जारी की जाती है | = (2) Calls in arrears
अदत्त याचनाएं |
| (c) The capital, a company cannot issued to the public
कम्पनी की पूंजी जो जनता को जारी नहीं की जा सकती है | = (3) Maximum capital of the company
कम्पनी की अधिकतम पूंजी |
| (d) Called-up money not paid by shareholders
मांगी गयी राशि जिसका भुगतान अंशधारी नहीं करते हैं | = (4) Issued capital
निर्गमित पूंजी |
- (A) a-2, b-3, c-4, d-1 (B) a-3, b-4, c-1, d-2 (C) a-4, b-1, c-2, d-3 (D) a-3, b-4, c-2, d-1

(Q. 7) A company is issued 150 shares and applications are received for 300 shares. Ram has allotted 50 shares.

The shares for which Ram had applied for :

एक कंपनी 150 अंश जारी करती है | कंपनी को 300 अंशों के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए | कम्पनी ने अंशों को आनुपातिक आधार पर आबंटित किया | राम को 50 अंश प्राप्त हुए | राम ने इतने अंशों के लिए आवेदन किया था :

- (a)(अ) 100 (b)(ब) 25 (c)(स) 75 (d)(द) 50

(Q. 8) The debenture-holders of the company are :

ऋणपत्रधारी कम्पनी के होते हैं :

- (a) Debtors (देनदार) (b) Creditors (लेनदार)
(c) Promoters (प्रवर्तक) (d) Owners (मालिक)

(Q. 9) The profit on redemption of debentures is transferred to :

ऋणपत्रों के शोधन पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है :

- (a) In Profit-Loss A/c (अ) लाभ-हानि खाते में (b) In Profit-Loss Appropriation A/c (ब) लाभ-हानि समायोजन खाते में
(c) In Capital Reserve A/c (स) पूंजीगत संचय में (d) In General Reserve A/c (द) सामान्य संचय में

(Q. 10) From the following is not a part of financial statements :

निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरणों का भाग नहीं है :

- (a) Income Statement (अ) आय विवरण (b) Balance Sheet (ब) स्थिति विवरण
(c) Cash-flow of Organization (स) रोकड़ प्रवाह विवरण (d) Attitude of A Company (द) कम्पनी का दृष्टिकोण

(Q. 11) Following are the assets & liabilities of a company in Rs. :

निम्नलिखित रूप से एक कम्पनी की सम्पतियाँ तथा दायित्व रुपयों में दिए गए हैं :

Cash (रोकड़) = 14000, Debtors (देनदार) = 6000, Prepaid Expenses (पूर्वदत्त व्यय) = 1000, Stock (स्टॉक) = 3000, Plant (प्लांट) = 5000, Furniture (फर्नीचर) = 4000

Creditors ((लेनदार) = 8000, Other Current Liabilities (अन्य चालू दायित्व) = 2000, Debentures (ऋणपत्र) = 1000.

The liquid ratio of the company is : कम्पनी का तरल अनुपात होगा :

- (a) (अ) 1:1 (b) (ब) 2:1 (c) (स) 1:2 (d) (द) 2.4:1

(Q. 12) At the time of calculation of cash from operating activities, the following is not added in the current year profit of the company : निम्नलिखित में से संचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करते समय कम्पनी के शुद्ध लाभ में नहीं जोड़ा जाता है :

- (a) Increase in debtors (अ) देनदारों में वृद्धि (b) Increase in general reserve (ब) सामान्य संचय में वृद्धि
(c) Increase in creditors (स) लेनदारों में वृद्धि (d) Decrease in stock (द) स्टॉक में कमी

Part-B (Very Short Answer Questions) (2 Marks)

भाग-बी (अति लघु-उत्तरीय प्रश्न) (2 अंक वाले प्रश्न)

Q. 13 Ram is withdrawn Rs. 2000 for his personal use from the firm in the beginning of every month for 5 months ending 31st March 2024. Rate of interest on drawings is 10%. Calculate interest on his drawings.

राम अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए महीने के आरम्भ में, वर्ष के आखिरी पांच महीनों के लिए 2000 रुपए फर्म से निकालता है | आहरण पर ब्याज की दर 10% है | उसकी आहरण पर ब्याज की राशि की गणना कीजिये | (1+1)=2

Q. 14 What is the meaning of reconstitution of partnership firm ? Explain the causes with which a partnership firm is reconstituted. सांझेदारी के पुनर्गठन का क्या अर्थ है ? उन कारणों का वर्णन करें जिनसे सांझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है |

(1+1)=2

Q. 15 What is the meaning of shares ? Write the main two types of shares.

अंशों का क्या अर्थ है ? अंशों के मुख्य दो प्रकारों के नाम लिखें |

(1+1)=2

Q. 16 Sham, who was allotted 40 shares of Rs. 10 each by a company, failed to pay the final call of Rs.3 each. His shares were forfeited. These shares are further re-issued for Rs.9 per share fully paid-up. Pass necessary journal entries for forfeiture and re-issue. शाम जिसे कम्पनी के द्वारा, 10 रुपए के 40 अंश आबंटित किये गए थे, उन अंशों को प्रथम याचना के 3 रुपए प्राप्त न होने के कारण जब्त कर लिया गया | इन अंशों को बाद में 9 रुपए के हिसाब से पुनर्निर्गमित कर दिया गया | अंशों को जब्त करने तथा पुनर्निर्गमन की रोजनामचा पृविष्टियाँ करें |

(1+1)=2

Q. 17 What is the meaning of debentures ? Write two features .

ऋणपत्रों का क्या अर्थ है ? कोई दो विशेषताएं लिखें |

(1+1)=2

Q. 18 A company is issued 1000, 6% debentures of Rs.100 each at par value and repayable at Rs. 110. Pass the journal entries for issue and redemption of debentures.

एक कंपनी 6% वाले 1000 ऋणपत्र 100 रुपए प्रति ऋणपत्र में जारी करती है तथा इनका पुनर्भुगतान 110 रुपए में करती है | ऋणपत्रों के निर्गमन तथा शोधन की पृविष्टियाँ कीजिये |

(1+1)=2

Q. 19 Write the name of four major methods of redemption of debentures.

ऋण पत्रों के शोधन की मुख्य चार विधियों के नाम लिखें |

(4X.5) = 2

Q. 20 Under what headings/sub-headings will you show the following items in the balance sheet of a company, according to the Company's Act-2013 ?

(i) Preliminary Expenses (प्रारम्भिक व्यय)

(ii) Goodwill (ख्याति)

(iii) Outstanding Salary (अदत्त वेतन)

(iv) Sundry Debtors (विविध देनदार)

(4X.5) = 2

Q. 21 Explain the limitations of ratio analysis.

अनुपात विश्लेषण की सीमाओं का वर्णन करें |

(2X1) = 2

Q. 22 What is the meaning of cash flow statement ? Explain its objectives .

रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या अर्थ है ? इसके उद्देश्यों का वर्णन करें |

(1+1) = 2

Part-C {(Short Answer Questions) (3 Marks Questions)} भाग-सी (लघु उत्तरीय प्रश्न) (3 अंकों वाले प्रश्न)

Q. 23 A company issued 5000, 6% debentures of Rs. 10 each at par value on 1st January 2020 to the public. At the end of third year on 31st December 2022, company wants to redeem its debentures at a premium of 10%. Company had a balance of Rs. 55000 in the profit & loss A/c on 31st December 2022. Pass necessary journal entries in the books of company.

एक कम्पनी 6% वाले 5000 ऋणपत्र 10 रुपए प्रति ऋणपत्र के हिसाब से पहली जनवरी 2020 को जनता को जारी करती है | कम्पनी तीसरे वर्ष 31 दिसम्बर 2022 को 10% प्रीमियम पर ऋणपत्रों का शोधन करना चाहती है | कम्पनी के पास उसके लाभ-हानि खाते में 55000 रुपए उपलब्ध हैं | कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा पृविष्टियाँ कीजिये |

(3X1) =3

Q. 24 Calculate interest coverage ratio from the information given below :

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर ब्याज आवरण अनुपात की गणना करें |

Net profit after interest and tax (ब्याज तथा कर के पश्चात शुद्ध लाभ) = Rs. 210000

Rate of Tax (कर की दर) = 30%

12% Debentures (12% ऋणपत्र) =Rs. 500000 (3X1) =3

Q. 25 Prepare cash flow statement from the following informations :

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण बनाएं |

Net profit during the year (वर्ष का शुद्ध लाभ) =Rs. 40000

Decrease in debtors (देनदारों में कमी) =Rs. 5000

Decrease in bills payable (देय विपत्रों में कमी) = Rs. 4000

Opening stock (प्रारम्भिक स्टॉक) =Rs. 1000

Closing stock (अंतिम स्टॉक) =Rs. 1200

Sale of plant (प्लांट का विक्रय) =Rs. 10000

Purchase of building (भवन का क्रय) = Rs. 6000

Issue of share capital (अंश पूंजी का निर्गमन) = Rs. 2000

Redemption of 7% debentures (ऋणपत्रों का शोधन) = Rs. 3000

Opening balance of cash (रोकड़ का आरम्भिक शेष) = Rs. 7000

Closing balance of cash (रोकड़ का अंतिम शेष) = Rs. 50800 (3X1) =3

Q. 26 (Case Study) The following is the balance sheet of M/s ABC Ltd. as on 31st December 2022. You are required to analyze the data and comments on short-term as well as long-term solvency position of the company.

निम्नलिखित रूप से एबीसी लिमिटेड की 31 दिसम्बर 2022 को स्थिति विवरण दिया गया है | आंकड़ों का विश्लेषण करके कम्पनी की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन शोधन क्षमता पर टिप्पणियाँ कीजिये |

Balance sheet of M/s ABC Ltd. as on 31st December 2022

Liabilities	Amt.in Rs.	Assets	Amount.in Rs.
Equity Share Capital	200000	Fixed Assets	375000
Reserve & Surpluses	50000	Current Assets	125000
Long-term Liabilities	125000		
Current Liabilities	125000		
Total	500000	Total	500000

(1.5+1.5) =3

Part-D (Long Answer Questions) (4 Marks Questions) भाग-डी (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न) (4 अंकों वाले प्रश्न)

प्रश्न 27 सांझेदारी फर्म के पुनर्गठन का क्या अर्थ है ? उन कारणों का वर्णन कीजिये जिनसे सांझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है. What is the meaning of reconstitution of partnership firm ? Explain those causes, with which a partnership firm is reconstituted. (1+3) =4

OR (अथवा)

Ashish and Dutta are partners in a partnership firm sharing profit or losses in the ratio of 3:2. They admitted Vimal on 31st December 2020 for 1/5th share of profit in partnership firm.

The balance sheet of Ashish and Dutta on that date as follows :

आशीष और दत्ता एक सांझेदारी फर्म में सांझेदार हैं, वे अपना लाभ या हानि 3:2 में बांटते हैं, वे 31 दिसम्बर 2020 को विमल को सांझेदारी फर्म में सांझेदार बनाते हैं, उस तिथि को आशीष और दत्ता का स्थिति विवरण निम्न प्रकार से है :

Balance sheet of M/s Ashish and Dutta as on 31st December 2020

Liabilities	Amount in Rs.	Assets	Amount in Rs.
Capital: (पूंजी)		Land & Building(भूमि और भवन)	35000
Ashish(आशीष) =80000		Plant (प्लांट)	45000
Dutta (दत्ता) =35000	115000	Debtors (देनदार) 22000	
Creditors (लेनदार)	15000	Less: Provision for Bad Debts -2000	20000
Bills Payable (प्राप्य विपत्र)	10000	(अप्राप्य ऋणों के लिए आयोजन)	
		Stock (रहतिया)	35000
		Cash (रोकड़)	5000
Total	140000		140000

Adjustments : (समायोजन) : (i) The value of land & Building be increased by Rs. 15000. भूमि तथा भवन को 15000 रुपए से बढ़ाना है | (ii) The value of Plant be increased by Rs. 10000. प्लांट के मूल्य को 10000 रुपए से बढ़ाना है
iii) Vimal to bring Rs. 36000 as capital and Rs. 20000 as goodwill. विमल पूंजी का 36000 रुपए और ख्याति का 20000 रुपए लायेगा | Prepare revaluation A/c, Partner's Capital A/cs and Balance Sheet of the firm after admitted Vimal in partnership firm. फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता , सांझेदारों के पूंजी खाते तथा स्थिति विवरण बनाएं | (1+2+1) = 4

प्रश्न 28 जब किसी फर्म से कोई सांझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो सांझेदारी फर्म में होने वाले मुख्य चार समायोजनाओं का विस्तृत वर्णन करें (4X1) = 4

When a partner is retired from partnership firm, explain major four adjustments in detail, made in partnership firm.

OR (अथवा)

C, D and E are partners in a firm sharing profit or losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st December 2020 as follows : सी, डी और ई तीन सांझेदार हैं उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है तथा स्थिति विवरण निम्नलिखित दिया गया है :

Liabilities	Amount in Rs.	Assets	Amount in Rs.
Capital (पूंजी):		Cash (रोकड़)	2500
C = 40000		Debtors (देनदार) =16000	
D= 30000		Les: Provision for Bad Debts: -500	
E= 25000	95000	(अप्राप्य ऋणों के लिए आयोजन)	15500
Creditors(लेनदार)	19000	Stock(रहतिया)	25000
Bills Payable(देय विपत्र)	5000	Motor Vans(मोटर गाड़ी)	8000
Reserve Fund(पूंजी कोष)	12000	Plant & Machinery(प्लांट और मशीन)	35000
		Buildings (भवन)	45000
Total	131000	Total	131000

D retires on that date with the following terms : इस तिथि को डी निम्नलिखित शर्तों के साथ सेवा-निवृत्त हो जाता है : 1. Goodwill of the firm is revalued at Rs. 18000. फर्म की ख्याति का मुल्यांकन 18000 रुपए किया गया है ।
2. Plant & Machinery to be depreciated by Rs. 10% and Motor Vans by 15%. प्लांट और मशीन पर 10% तथा मोटर गाड़ी पर 15% ह्रास लगाया जायेगा
3. Stock to be appreciated by 20% and buildings by 10%. रहतिया 20% तथा भवन 10% से बढ़ाया जायेगा
4. The provision for bad debts increased by Rs. 1950. अप्राप्य ऋणों पर आयोजन को 1950 रुपए से बढ़ाया जायेगा
Prepare Revaluation A/c, Partner's Capital Acs and Balance Sheet of new firm.
नई फर्म का पूंजी खाता, सांझेदारों के पूंजी खाते तथा स्थिति विवरण बनाएं (1+2+1)=4

प्रश्न 29 सांझेदारी फर्म के समापन का क्या अर्थ है ? उन कारणों का वर्णन करें जिनसे एक सांझेदारी फर्म का समापन होता है । (1+3)=4

अथवा

A and B are partners sharing profit or losses equally. Their balance sheet as on 31st December 2020 was as follows :
अ और ब दो सांझेदार हैं जो अपना लाभ या हानि बराबर बांटते हैं . उनका 31 दिसम्बर 2020 स्थिति विवरण निम्नलिखित है :

Liabilities	Amount in Rs.	Assets	Amount in Rs.
Capital (पूंजी) A = 20000 B = 20000	40000	Cash at Bank (बैंक शेष)	3500
Creditors (लेनदार)	11200	Stock (स्टॉक)	17800
Bills Payable (देय विपत्र)	1800	Debtors (देनदार)	12400
Reserve Fund (संचय कोष)	6000	Furniture (फर्नीचर)	2800
		Plant and Machinery (प्लांट और मशीन)	22500
Total	59000	Total	59000

Adjustments : They decide to dissolve the firm on the following terms :

समायोजन : उन्होंने फर्म के समापन का निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्णय लिया :

(1) The assets are realized as follows : Stock Rs. 18200, Debtors Rs. 10600, Furniture Rs. 1800, Plant & Machinery Rs. 19000. (2) Creditors are paid less 2 % of actual value.

सम्पतियाँ निम्नलिखित मूल्य पर वसूली जाएंगी : स्टॉक 18200 रुपए , देनदार 10600 रुपए , फर्नीचर 1800 रुपए , प्लांट और मशीन 19000 रुपए (2) लेनदारों का 2% से कम पर भुगतान करना है

(3) Realization expenses are Rs. 544. वसूली व्यय 544 रुपए हैं

Prepare Realization A/c, Partner's Capital A/cs and Cash A/c of dissolved firm.

फर्म का वसूली खाता, सांझेदारों के पूंजी खाते और रोकड़ खाता बनाएं (2+1+1)=4

Q. 30 The authorized capital of Z Ltd. was Rs. 1000000 divided into shares of Rs. 10 each. Company invited applications for 60000 shares payable as under: Rs. 3 on application, Rs.2 on allotment, Rs.2 on first call and balance when required . An applicant who had been allotted 600 shares failed to pay the allotment and first call money. Subsequently his shares are forfeited and re-issued @ Rs. 6 per share, credited as Rs. 7 paid-up. Pass necessary journal entries and prepare bank A/c and balance sheet.

जेड लिमिटेड की 1000000 रुपए की अधिकृत पूंजी थी जो 10 रुपए के अंशों में विभाजित थी । कम्पनी 60000 अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना-पत्र मंगवाती है, जिनका प्रार्थना-पत्र पर 3 रुपए , आबंटन पर 2 रुपए, पहली याचना पर 2 रुपए तथा शेष आवश्यकता पड़ने पर मंगवाती है । एक प्रार्थी जिसे 600 अंश जारी किये गए थे, वह आबंटन तथा प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाटा है । उसके पश्चात उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है तथा 6 रुपए प्रति अंश के हिसाब से, 7 रुपए चुकता मानकर उनका पुनः निर्गमन कर दिया जाता है । आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ, बैंक खाता तथा स्थिति विवरण बनाएं । (2+1+1)=4

Answer Key : MCQ 1 (a) 2 (b) 3 (a) 4 (d) 5 (c) 6 (B) 7 (a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11 (b) 12 (a)

Units/Column	Name of the Units	Marks Assigned
1	Accounting for Partnership: Basic Concepts	3
2	Reconstitution of partnership firm: Change in profit sharing ratio and Admission of partner	8
3	Reconstitution of partnership firm: Retirement/Death of partner	5
4	Dissolution of partnership firm	5
	Total of Part-A	<u>21</u>
Part-B- Company Accounting and Analysis of Financial Statements MM= 39		
5	Accounting for Share Capital	10
6	Issue & Redemption of Debentures	11
7	Financial Statements of Company	3
8	Accounting Ratios	6
9	Cash flow Statement	6
10	Case Study Question	3
11	Total of Part-B	<u>39</u>
12	Total (C)= Part-A + Part-B	60
13	Project Work= Unit-7, 8, 9 of Part-B	20
14	Total (A+B+C)	80
15	Internal Assessment	20
16	Grand Total	<u>100</u>
Syllabus for Assertion/Reasoning, Matching and Case Study questions		
17	Assertion/Reasoning Question (One Mark)	Accounting for Partnership Firms (All Units)
18	Matching Question (One Mark)	Accounting for Share Capital & Debentures (All Units)
19	Case Study Question (Three Marks)	Analysis of Financial Statements (All Units)

Design of Question Paper (Blue Print) Session-2025-26

10+2 Accountancy (Partnership and Company Accounting) MM =60

Lesson wise distribution of marks

Part-A (Accounting for Partnership Firms) MM =21

MCQ= 5(Part-A) + 7(Part-B) = 12

Unit	Lesson	Name of the lesson	(MCQ) 1 Mark Question	2 Marks Question	3 Marks Question	4 Marks Question	Marks Assigned
I	i	Accounting for partnership firm: Basic Concepts	1	1 N	-	-	3
II	ii	Reconstitution of partnership firm: Change in profit sharing ratio	1	1 N/T	-	-	3
-	iii	Reconstitution of partnership firm: Admission of partner	1	-	-	1 N OR T	5
III	iv	Reconstitution of partnership firm: Retirement/Death of partner	1	-	-	1 N OR T	5
IV	v	Dissolution of partnership firm	1	-	-	1 N OR T	5
		Total of Part-A	5X1 =5	2X2=4	-	3X4=12	21
Part-B MM- 39 (Corporate Accounting and Analysis of Financial Statements)							
V	Vi	Accounting for share capital (MCQ-2)	2	2 (One T & One N)	-	1 N	10
VI	vii	Accounting for Debentures (MCQ-1) (Issue of debentures)	1	2 (One T & One N)	-	-	5
-	viii	Accounting for Debentures (MCQ-1) (Redemption of debentures)	1	1 T	1 N	-	6
VII	ix	Financial statements of a company (MCQ-1)	1	1 T/N	-	-	3
VIII	X	Accounting Ratios (MCQ-1)	1	1 T	1 N	-	6
IX	xi	Cash flow statement (MCQ-1)	1	1 T	1 N	-	6
-	-	Case Study Question			1 N		3
		Total of Part-B	7X1 =7	8X2=16	4X3=12	1X4=4	39
Theory		Grand Total of Part-A and Part-B	12	10X2=20	4X3=12	4X4=16	60
XI	-	Project Work: Unit VII,VIII & IX of Part-B (Analysis of Financial Statements)					20
XII	-	Internal Assessment					20
-	-	Grand Total (Part-A + Part-B)	12	20	12	16	100

Note:

1. N stands for Numerical and T for Theory.
2. N/T means that question of numerical or theory may be set in the question paper.
3. N OR T stands for choice in the question, ie student have to attempt only one question out of two.

Designing of Model Question Paper (Accountancy 10+2) Session-2025-26 MM=60

Part-A (1 Mark) MCQ

(Multiple Choice Questions) =12 (Part-A=5 + Part-B=7)

Units	Sub-units	Name of the Units	No. of Questions	Maximum Marks	Total Marks
I	-	Accounting for Partnership Firms	1	1	1
II	i	Reconstitution of Partnership Firms (Change in Profit Sharing Ratio)	1	1	1
II	ii	Reconstitution of Partnership Firms (Admission of Partner)	1	1	1
III	-	Reconstitution of Partnership Firms (Retirement/Death of Partner)	1	1	1
IV	-	Dissolution of Partnership Firms	1	1	1
V	-	Accounting for Share Capital	2	1	2
VI	i	Accounting for Debentures (Issue of Debentures)	1	1	1
VI	ii	Accounting for Debentures (Redemption of Debentures)	1	1	1
VII	-	Financial Statements of Company	1	1	1
VIII	-	Accounting Ratios	1	1	1
IX	-	Cash flow Statement	1	1	1
Total		12X1= 12	12	1	<u>12</u>

Part-B (2 Marks Questions)

Units	Sub-units	Name of the Units	No. of Questions	Maximum Marks	Total Marks
I	-	Accounting for Partnership Firms	1	2	2
II	i	Reconstitution of Partnership Firms (Change in Profit Sharing Ratio)	1	2	2
II	ii	Reconstitution of Partnership Firms (Admission of Partner)	-	-	-
III	-	Reconstitution of Partnership Firms (Retirement/Death of Partner)	-	-	-
IV	-	Dissolution of Partnership Firms	-	-	-
V	-	Accounting for Share Capital	2	2	4
VI	i	Accounting for Debentures (Issue of Debentures)	2	2	4
VI	ii	Accounting for Debentures (Redemption of Debentures)	1	2	2
VII	-	Financial Statements of Company	1	2	2
VIII	-	Accounting Ratios	1	2	2
IX	-	Cash flow Statement	1	2	2
Total of Part-B			10	10X2=20	<u>20</u>

Part-C (3-Marks Questions)					
I	-	Accounting for Partnership Firms	-	-	-
II	i	Reconstitution of Partnership Firms (Change in Profit Sharing Ratio)	-	-	-
II	ii	Reconstitution of Partnership Firms (Admission of Partner)	-	-	-
III	-	Reconstitution of Partnership Firms (Retirement/Death of Partner)	-	-	-
IV	-	Dissolution of Partnership Firms	-	-	-
V	-	Accounting for Share Capital	-	-	-
VI	i	Accounting for Debentures (Issue of Debentures)	-	-	-
VI	ii	Accounting for Debentures (Redemption of Debentures)	1	3	3
VII	-	Financial Statements of Company	-	-	-
VIII	-	Accounting Ratios	1	3	3
IX		Cash flow Statement	1	3	3
		Case Study Question	1	3	3
Total of Part-C			4	4X3=12	12
Part-D (4 Marks Questions)					
I	-	Accounting for Partnership Firms	-	-	-
II	i	Reconstitution of Partnership Firms (Change in Profit Sharing Ratio)	-	-	-
II	ii	Reconstitution of Partnership Firms (Admission of Partner)	1	4	4
III	-	Reconstitution of Partnership Firms (Retirement/Death of Partner)	1	4	4
IV	-	Dissolution of Partnership Firms	1	4	4
V	-	Accounting for Share Capital	1	4	4
VI	i	Accounting for Debentures (Issue of Debentures)	-	-	-
VI	ii	Accounting for Debentures (Redemption of Debentures)	-	-	-
VII	-	Financial Statements of Company	-	-	-
VIII	-	Accounting Ratios	-	-	-
IX		Cash flow Statement	-	-	-
Total of Part-D			4	4X4=16	16
Grand Total of Part-A, Part-B, Part-C & Part-D (12 + 20 + 12 + 16) = 60					60

Distribution of questions according to Knowledge Based, Understanding Based, Application Based and Skill Based

Knowledge Based Questions			
Category of Questions	Number in Model Question Paper	Total Questions	Percentage (%)
Multiple Choice Questions	2, 8	2	-
2 Marks Questions	15, 17	2	-
3 Marks Questions	24	1	-
4 Marks Questions	Nil	Nil	-
Total		5	17 %
Understanding Based Questions			
Multiple Choice Questions	4, 9, 10, 12	4	-
2 Marks Questions	14, 19, 21	3	-
3 Marks Questions	25	1	-
4 Marks Questions	29	1	-
Total		9	30 %
Application Based Questions			
Multiple Choice Questions	3, 5, 7, 11	4	-
2 Marks Questions	13, 16, 18	3	-
3 Marks Questions	23	1	-
4 Marks Questions	27, 28	2	-
Total		10	33 %
Skill Based Questions			
Multiple Choice Questions	1, 6	2	-
2 Marks Questions	20, 22	2	-
3 Marks Questions	26	1	-
4 Marks Questions	30	1	-
Total		6	20 %
Grand Total		(5 + 9 + 10 + 6) = 30	100 %


Distribution of Questions According to Difficulty Level

Category of Questions	Tough/Difficult	Moderate	Easy	Total
Multiple Choice Questions	1, 3, 7	4, 5, 6, 11, 12	2, 8, 9, 10	12
2 Marks Questions	16, 18	13, 14, 19, 20	15, 17, 21, 22	10
3 Marks Questions	23	25, 26	24	4
4 Marks Questions	30	29	27, 28	4
Total	7	12	11	30
Percentage (%)	23 %	40 %	37 %	100 %

BOOKS RECOMMENDED:

लेखाशास्त्र – I
लेखाशास्त्र – II

Accountancy - I
Accountancy - II



Published by N.C.E.R.T. New Delhi